



## श्री श्री सूर्यदेव सिंह स्मृति गुरुकुलम सरायढेला, धनबाद

सत्र (२०२३-२४)

### ग्रीष्मावकाश गतिविधि

कक्षा:- नवी विषय:-हिंदी

- किन्हीं दो का चित्र बनाएं अथवा चिपकाएं।उनका जीवन परिचय दें तथा उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखें।
- फणीश्वरनाथ रेणु (ख) मुंशी प्रेमचंद (ग) मृदुला गर्ग और कबीरदास की कोई चार साखियां अर्थ सहित लिखें।
- भारत के किसी एक प्रसिद्ध धरोहर स्थल के बारे में लिखें तथा उससे सम्बन्धित चित्र बनाएं अथवा चिपकाएं।



- यदि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता 'इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखें। उसमें प्रयुक्त क्रिया शब्दों को रेखांकित करें।
- पर्यावरण के प्रति जागरुकता के लिए एक आकर्षक विज्ञापन २५ से ५० शब्दों में तैयार करें।
- 'फैशन का भूत ' शीर्षक पर एक निबंध लिखें।

संकेत बिंदु:- (१) अर्थ (२) अमंगलकारी (३) आधुनिकता का झूठा गर्व (४) जिम्मेदार कौन (५)

युवाओं से अपेक्षा

कक्षा में करवाए गए कार्यों को पूरा करें तथा याद करें।

नोट:-सभी कार्य A 4शीट में तैयार करें तथा स्टिक फाइल में लगाएं।



Edit with WPS Office



**SRI SRI SURYADEO SINGH SMRITI  
GURUKULAM**

SARAIIDHELA, DHANBAD

Session- 2023-24

Grade- IX

Subject- Science (Physics)

Teacher's Name- Sourav Roy



**SUMMER VACATION ASSIGNMENT**

**Concept based Questions:**

**1. Write a note on:**

- a. Speed
- b. Average speed
- c. Velocity
- d. Average velocity
- e. Acceleration
- f. Force
- g. Newton's first law of motion.
- h. Concept of 2nd law of motion.
- i. Concept of inertia in details.



**Objective questions:**

What would be the displacement of a particle moving in a circular path of radius  $r$  after a displacement of half a circle?

$2\pi r$

$\pi r$

$2r$

Zero

The path length travelled by a body in a given time interval is known as \_\_\_\_\_.

distance

velocity

acceleration

moment

Which of the following situations is true and possible?

If the velocity of a body is zero, then the acceleration can be non-zero

A body moving at a constant velocity can have acceleration

The magnitude of distance and displacement are equal in a circular motion

All of the above





**Suppose a boy is moving with a uniform velocity of 10 m/s on a merry-go-round ride. Which of the following is true of the given scenario?**

**The boy is at rest**

**The boy is moving with no acceleration**

**The boy is moving with accelerated motion**

**The boy is moving with uniform velocity**

**Which of the following is true of a free-falling body?**

**It moves with non-uniform motion**

**It has zero velocity**

**It has constant non-zero acceleration**

**It has non-uniform acceleration**

**(stick the picture of the following examples)**

**2. Prove three equations of motion graphically( in graph paper).**

**3. Practice all numericals done in the class .**

**(Write all the above in your stick file )**





thank you!

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Science



Edit with WPS Office



**SRI SRI SURYADEO SINGH SMRITI GURUKULAM  
SARAIHELIA, DHANBAD**

**HOLIDAY ASSIGNMENT-(2023 - 24)**

**Name:-**

**Class:- ix**

**Section:- 'A'.**

**Subject:- Music**

**प्र०(1):- अछुतम केशवम भक्ति गीत को पूरा लिखिए।**

**प्र(2):- कोई भी एक शास्त्रीय गायक की जीवनी लिखिए।**



Subject :- English

**Sri Sri Suryadeo Singh Smriti Gurukulam**

**Summer Holiday Assignment**

**Grade-IX**

1. write an article on any two Heritage Site of India, include all the necessary data in form of table .Stick some pictures and make it look eye catching.
2. Write an essay on gender inequality. Do a survey in your neighbour and collect information regarding the condition of women in your society.

### **Activity**

- 1) Make a poster on any Heritage site of India . (Title it neatly and add some slogans to make it look eye-catchy)
- 2) Make a poster representing gender equality (Title it neatly and add some slogans to make it look eye-catchy)





**SRI SRI SURYADEO SINGH SMRITI  
GURUKULAM, SARAIHELIA DHANBAD**

## **HOLIDAY ASSIGNMENT**

**Summer Vacation**

**Grade - IX**

**Session :- 2023-24**



**Subject :- Social Science**


Dear Students,

This summer holiday homework is based on the topic of Heritage in India which is very much a part of your social sciences curriculum.

Our heritage provides clues to our past and how our society has evolved. It helps us examine our history and traditions and enables us develop an awareness about ourselves. It helps us understand and explain why we are the way we are.



1. Draw a 2D Or 3D picture of Heritage in India and Write its significance .
2. Which are the major Physiographic divisions of India Explain? Show it on the map of India.



Edit with WPS Office





3.What is the organization of production in the story of Palampur?

### **Topic: Organisation of production**

#### **Factors of production**



Land



Labour



Capital



Entrepreneur

4.How did France abolishes monarchy and becomes a republic?

#### **5.Map skill-**

Identify the following with the help of map reading.

- (i) The States through which the Tropic of Cancer passes.
- (ii) The northernmost latitude in degrees.
- (iii) The southernmost latitude of the Indian mainland in degrees.
- (iv) The eastern and the western-most longitude in degrees.
- (vi) The place situated on the three seas.
- (v) The Union Territories of India.





\* Please note that the date of submission for the completed project report is on 22th June 2023.

**Guidelines to complete your project report.**

1. The project needs to be done individually in a creative and neat manner.
2. The project report should be in A-4 size sheets filed together and spiral neatly.
3. You can cover/design the cover page as per your liking.
4. The Project needs to be handwritten. For diagrams/graphs, use fine tip pencil for neatness. Stick pictures and articles neatly wherever appropriate giving them a fine outline.

**5. The project should be presented in the following format:**

- a. Cover page
- b. Acknowledgement
- c. Index
- d. Introduction (A brief synopsis of your entire project report)
- e. Objective





- f. Analysis of your learning from the task
- g. Conclusion (A summary of your project report)
- h. Bibliography (This should include clear mention of websites/URLs visited, newspaper and magazines referred, articles, information from any government department or other experts)
- I. Annexure (Any article, interview excerpt, maps, etc. should come here)

**With this assignment students can promote their creative and critical thinking.**

**Happy holiday and enjoy learning!!!!**





Edit with WPS Office